



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1931 (श0)

(सं0 पटना 507) पटना, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2009

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

29 सितम्बर 2009

एस0 ओ0 206, दिनांक 1 अक्टूबर 2009—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा- 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पंथ से भी परमर्श के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजन विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर प्रायोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) स्तंभ-2 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची-1 (अ) के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी.. 2009	148	4.63X4.93	3378.23
फरवरी, 2009	148	4.63X4.93	3378.23
मार्च, 2009	148	4.63X4.93	3378.23
अप्रैल, 2009	150	4.63X4.93	3323.88
मई, 2009	151	4.63X4.93	3446.71
जून, 2009	153	4.63X4.93	3492.36
योग	—	—	20497.64
औसत	—	—	3416.27

## अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- दवा बिक्री प्रोत्साहन।  
अधिसूचना संख्या-3289, तिथि-30 जून 2008

## अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी+ भी०डी०ए०-०१-०४-०९ (रुपये में)	भी०डी०ए० प्रभावी की तिथि ०१.१०.०९ (रुपये में)	दि० ०१.१०.०९ को कुल मजदूरी (३+४) (रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अकुशल	85.00+8.00=93.00 प्रतिदिन	02.00	95.00	—
2	अर्द्धकुशल	88.00+8.00=96.00 प्रतिदिन	03.00	99.00	—
3	कुशल	108.00+10.00=118.00 प्रतिदिन	03.00	121.00	—
4	अतिकुशल	132.00+13.00=145.00 प्रतिदिन	03.00	148.00	—
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	2454.0+236.00=2690.00 प्रतिमाह	64.00	2754.00	—

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी—जून, 2009 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2009 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्ल्यू०-405/०७-श्र०सं०-3529)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

29 सितम्बर 2009

एस० ओ० 207, एस० ओ० 206 दिनांक 1 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्ल्यू०-405/०७-श्र०सं०-3530)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 29th September 2009*

S.O. 206 dated 1st October 2009—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (b) of sub section (1) of section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed / revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column-2 of schedule 1 (B) here to appended for the month shown in column 2 of the said schedule shall be shown in column 04 of the schedule 1 (a) for the purpose of clause (d) of section 02 of the said Act.

**SCHEDULE -1 (A)**

Month and Year	Index No Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base Year	Changed Index No. for base year (1960-100)
January, 2009	148	4.63x4.93	3378.23
February, 2009	148	4.63x4.93	3378.23
March, 2009	148	4.63x4.93	3378.23
April, 2009	150	4.63x4.93	3423.88
May, 2009	151	4.63x4.93	3446.71
June, 2009	153	4.63x4.93	3492.36
<b>Total</b>	.	.	20497.64
<b>Average</b>	.	.	3416.27

**SCHEDULE -1 (B)**

1- Name of Employment—**Sales promotion of medicine**  
Notification No:-3289, date:-30-06-2008

**SCHEDULE -II**

Sl. No	Categories of Worker	Basic Minimum Wage+ V.D.A Effective date 01-04-2009	V.D.A Effective date 01-10-2009	Total wage from 01-10-09 (3+4)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Unskilled	85.00+8.00= 93.00 Per day	02.00	95.00	-
2	Semi Skilled	88.00+8.00=96.00 Per day	03.00	99.00	-
3	Skilled	108.00+10.00=118.00 Per day	03.00	121.00	-
4	Highly Skilled	132.00+13.00=145.00 Per day	03.00	148.00	-
5	Supervisory/ Clerical	2454.00+236.00=2690.00 per month	64.00	2754.00	-

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the

above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January to June, 2009 payable at the aforesaid rates from October, 2009 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M.W.- 405 /07-L&R—3529 )

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

*Additional Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 507-571+100-डी0टी0पी0।

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**